

Date: August 30, 2023

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400001

Scrip Code: 517214

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block Bandra – Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai – 400 051 **Scrip Code: DIGISPICE**

Sub.: Intimation of 35th Annual General Meeting, Book Closure and E-voting

Dear Sir/Madam,

This is to inform that the 35th Annual General Meeting ('AGM') of DiGiSPICE Technologies Limited (the 'Company') will be held through Video Conferencing ('VC') or Other Audio-Visual Means ('OAVM') on Thursday, 28th day of September, 2023 at 11:00 A.M. in compliance with General Circular 10/2022 dated 28th December, 2022 read with Circular dated 5th May, 2020, 8th April, 2020 and 13th April, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Circular dated 5th January, 2023 read with Circular dated 12th May, 2020, issued by SEBI (hereinafter collectively referred as the 'Circulars'), to transact the businesses that will be set forth in Notice of the AGM.

The Notice of AGM along with Annual Report for financial year 2022-23 will be sent in due course of time, by electronic mode to those shareholders whose email address is registered with the Company/ Depositary Participant(s) ('DP'). Aforesaid documents will also be made available on the website of the Company, www.digispice.com, and on the website(s) of the stock exchanges, where equity shares of the Company are listed viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Pursuant to provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and rules framed thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), the Notice is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Register shall remain closed from 22nd September, 2023 to 28th September, 2023 (both days inclusive), for the purpose of 35th AGM of the Company.

In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations (including amendment thereof), the Company is providing to the Members, the facility to exercise their right to vote by electronic means for transacting all the businesses as stated in this Notice through e-voting services being provided by National Securities Depository Limited ('NSDL'). The remote e-voting period will commence on Monday, 25th September, 2023 at 9:00 A.M. and end on Wednesday, 27th September, 2023 at 5:00 P.M, during this period, shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. on Thursday, 21st September, 2023, may cast their votes electronically. Additionally, the

DiGiSPICE Technologies Limited

CIN-L72900DL1986PLC330369

Regd. Office: 622, 6th Floor, DLF Tower A, Jasola Distt. Center, New Delhi- 110025, Tel: +91 11 41251965

Corp. Office: Spice Global Knowledge Park, 19A & 19B, Sector-125, Noida- 201301, Uttar Pradesh, India, Tel: +91 120 5029101

Email ID: Complianceofficer@digispice.com; Website: www.digispice.com



facility of voting through e-voting system to those shareholders, who have not cast their vote through remote e-voting module, will also be available during the AGM.

Further, pursuant to Regulation 30 and 47 of the Listing Regulations, we are enclosing the copies of newspaper advertisement(s) published in Financial Express (English) (Annexure I) and Jansatta (Hindi) (Annexure II) on 30th August, 2023 in compliance with the MCA circular no. 20/2020 dated 5th May, 2020.

Kindly take the above information on record and acknowledge receipt of the same.

Thanking you.

Yours faithfully,
For **DiGiSPICE Technologies Limited**

Ruchi Mehta Company Secretary & Compliance Officer

Encl: - as above.

FINANCIAL EXPRESS

SO/DSO Containers at MMLP Mihan (Two-Vendors).

Tender No.

Estimated Cost

Date of Sale (Online)

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

TENDER NOTICE (E-Tendering Mode Only)

E-Bids are invited for Open e-Tender (in Single Packet) for Licensing out of Space for repair of

CON/AREA-II/(ISO/DSO) Container Repair/MIHAN/2023

Rs. 2.91,49,487/- (Inclusive of GST) for Four (4) years

From 30.08.2023 at 15:00 hrs. to 13.09.2023

CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(भारत सरकार का नकरल उपाक्रम) (A Naviratina Undertaking of Govt. of India)
CONCOR NSIC New NDBP Building, 2" Floer, Okhia Indi. Estate (Opp. NSIC Okhia Netro Station), New Delhi-110020

Godrej Properties Limited

CIN: L74120MH1985PLC035308

Registered Office: Godrej One, 5th Floor, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai 400 079, Maharashtra, India Email: secretarial@godrejproperties.com website: www.godrejproperties.com Tel.: +91 22 6169 8500 Fax: +91 22 6169 8888

Notice to Members

The members of Godrej Properties Limited ("the Company") are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Companies Act") (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules. 2014 (the "Rules") as amended from time to time, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Companies Secretaries of India ("SS-2") and in accordance with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021, General Circular No. 3/2022 dated May 2022 and General Circular No.11/2022 dated December 28, 2022 (the "MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs, the Company has on August 29, 2023 completed the dispatch of the Postal Ballot Notice dated August 18, 2023 ('the Notice') only through electronic mode to the members whose email addresses were registered with the Company or with the Depositories/ Depository Participants and whose names were recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on August 25, 2023 ('cut-off date'), for seeking consent of the members by postal ballot through electronic means, in relation to the resolutions as detailed in the said Notice. Accordingly, physical copies of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business envelope have not been sent to the members.

www.godrejproperties.com, on the website of KFintech at http://evoting.kfintech.com and website of the stock exchanges where the equity shares of the Company are listed i.e. BSE Limited www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com. The Company has engaged the services of KFintech to provide remote e-voting facility to its members. The voting will commence from 09:00 a.m. (IST) on Wednesday, August 30, 2023 and will remain open till 05:00 p.m. (IST) on Thursday, September

The Postal Ballot Notice is available on the website of the Company at

28, 2023 and voting whether by postal ballot or by electronic means shall not be allowed beyond the said date and time. The e-voting module will be disabled for voting thereafter. The detailed procedure for e-voting is given in the notes forming part of Notice. Once the vote on a resolution is cast by the member, the same cannot be changed subsequently. Voting rights of the members shall be in proportion to the shares held by them in the paid-up share capital of the Company as on cut-off date i.e. August 25, 2023. As per the SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 09. 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, e-voting process has been

enabled to all the individual demat account holders, by way of single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants in order to increase the efficiency of the voting process. Members are advised to update their mobile number and email address with their respective DPs in order to access evoting facility. Detailed instructions for login methods of e-voting are provided in the Postal Ballot Notice. In accordance with the MCA Circulars, physical copies of the Notice will not be

circulated to the members. However, it is clarified that all the persons who are members of the Company as on August 25, 2023 (including those members who may not have received this Notice due to non-registration of their email IDs with the Company or with the Depositories/ Depository Participants) shall be entitled to vote in relation to the resolutions specified in the Notice. Any person who is not a member as on August 25, 2023 should treat this Notice for information purposes only.

Process for those members whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e-mail ids for

- Members are required to visit the following link https://ris.kfintech.com/ clientservices/postalballot/registration.aspx and complete the registration process
- Post successful registration of the e-mail, the members would get a soft copy of the Notice and the procedure for e-voting along with the User ID and Password to enable e-voting for this Postal Ballot. In case of any gueries, members may write to
- For permanent registration of e-mail address, the members are requested to register their e-mail address, in respect of electronic holdings with the Depository through the concerned Depository Participants and in respect of physical holdings with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited, Selenium, Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi, Telangana, India - 500 032.

KFintech at einward.ris@kfintech.com.

Members desirous to cast their vote through postal ballot physically are requested to take printout of the Postal Ballot Form from www.godrejproperties.com or https://evoting.kfintech.com, fill the details and send the duly signed ballot form, at his/ her own cost, to the Scrutinizer Mr. Ashish Kumar Jain, C/o KFin Technologies Limited, Unit: Godrej Properties Limited, Selenium, Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi, Telangana, India - 500 032, not later than 05:00 P.M. on Thursday, September 28, 2023. The Postal Ballot(s)

the Scrutinizer. Please note that any Postal Ballot Form(s)/ Electronic Votes received/ casted from/ by the member after the aforesaid time period will not be valid and will be strictly treated as if the reply from such member has not been received. The members can opt for only one mode of voting i.e. through postal ballot forms or e-voting. If the members decide to vote through Postal Ballot they are advised not to vote through e-voting and vice versa. In case of voting by both the modes, voting through e-voting will be considered and

received after 05:00 P.M. on Thursday, September 28, 2023 will not be considered by

counted and Postal Ballot of such member will be treated as invalid The Board has appointed Mr. Ashish Kumar Jain, Company Secretary in Practice, Membership No. 6058 and CP No. 6124 as the Scrutinizer to scrutinize the voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer will submit his report to the Executive Chairperson of the Company or to the Managing Director of the Company or to the Company Secretary. The results of the Postal Ballot will be declared on or before September 30, 2023 by uploading it along with the Scrutinizer's Report on the website of the Company at www.godreiproperties.com and on the e-voting website of Kfintech i.e.

https://evoting.kfintech.com. The results shall also be communicated simultaneously to BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited, where equity shares of Members can also call KFintech toll free No. 1800-3094-001 or send an email to evoting@kfintech.com for any further clarifications or grievances. In case of any query/ concern/ grievance, members may refer to the Frequently Asked Questions

(FAQs) and e-voting user manual for members available at the "Downloads" section of For Godrei Properties Limited

https://evoting.kfintech.com.

Ashish Karyekar **Company Secretary** (ICSI Membership No. A11331)

Place: Mumbai Date: August 29, 2023

CIN: L24124RJ2004PLC019288

Krishana Phoschem Limited

Registered Office: 5-O-20, Basement, R.C. Vyas Colony, Bhilwara, 311001 Rajasthan Email: secretarial@krishnaphoschem.com, Website: www.krishnaphoschem.com

NOTICE OF 19th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH

VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS In compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013, rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015 read with

general circular no. 14/2020 dated 08th April 2020, general circular no. 17/2020 dated 13th April 2020, general circular no. 20/2020 dated 05th May 2020, general circular no. 02/2021 dated 13th January 2021, general circular no. 21/2021 dated 14th December 2021, general circular no. 02/2022 dated 05th May 2022 and general circular no. 11/2022 dated 28th December 2022 issued by ministry of corporate affairs read with SEBI circular dated 5th January 2023 and other relevant circulars of SEBI, from time to time (hereinafter collectively referred to as "SEBI circulars"), the 19th Annual General Meeting (AGM) of the company will be held through Video Conferencing ("VC") on Thursday 28th September 2023 at 11:00 A.M. (IST) to transact the business that will be set forth in the notice of AGM ('Notice').

In accordance with the aforesaid Circulars, the Notice and the Annual Report for the financial year 2022-23, will be sent only through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants (DPs). The Notice and Annual Report will also be available on the website of the Company at www.krishnaphoschem.com and on the website of National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com.Further, members can join and participate in the AGM through VC facility only. The instructions for joining and manner of participation in the AGM will be provided in the notice. Members attending the AGM through VC shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies act, 2013.

In order to send Notice, Annual Report and other Communications to the members in electronic form, Members who have not yet registered their email address are requested to register the same immediately in respect of shares held in electronic form with the depository through their depository participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to Company's Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited at

rnt.helpdesk@linkintime.co.in The Company will provide remote e-voting facility to all its members to cast their votes on the resolutions set forth in the notice. Additionally, the company will also provide the facility

of voting through e-voting system during the AGM. The detailed procedure for casting votes through remote e-voting/ e-voting at the AGM shall be provided in the Notice.

The Shareholders may note that the final dividend will be paid electronically to those shareholders who have updated their bank account details. For shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrants/ demand drafts / cheque will be sent out to their registered addresses once the postal facility is available. To avoid delay in receiving the dividend, shareholders are requested to update their KYC with their depositories (where shares held in dematerialized mode) to receive dividend directly into their bank account on the payment date.

For Krishana Phoschem Limited Place: Bhilwara (Priyanka Bansal) Date: 29/08/2023 Company Secretary & Compliance Officer

REPL

RUDRABHISHEK ENTERPRISES LIMITED CIN: L74899DL1992PLC050142

Regd. Office: 820, ANTRIKSHA BHAWAN, 22, K.G. MARG, NEW DELHI-110001 Tel: (011) - 011-41069500, 43509305, 43513857 Fax: 011-23738974 E-Mail: secretarial@replurbanplanners.com: Website: www.repl.global INFORMATION REGARDING 31st ANNUAL GENERAL MEETING TO BE

HELD ON SEPTEMBER 21, 2023 THROUGH VIDEO CONDENCE (VC)/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

This is to inform that the 31st Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video conference (VC) / Other Audio-visual means (OAVM) on Thursday. September 21, 2023 at 3:00 pm IST in compliance with the applicable provisions of the Companies Act 2013 read with Circulars Circular No. 14/2020 dated 08th April ,2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020, Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021, Circular No.02/2022 dated 05th May, 2022 and Circular No.10/2022 dated 28th December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (collectively referred to as 'MCA Circulars') and SEBI Circular dated 12th May 2020, 15th January 2021 13th May, 2022 and 05th January 2023 ("SEBI Circulars") issued by the Securities and Exchange Board of India, (the SEBI Circulars) to transact the business that is set forth in the Notice calling 31st Annual General Meeting.

In compliance with the above circulars, the Company has sent electronic copies of the Notice of 31st AGM and Annual Report for financial year 2022-23 to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/Registrar & Share Transfer Agent (''Registrar'') and Depository Participant(s)('DPS'). The notice of the 31st AGM and Annual Report for financial year 2022-23 is also available on the Company's website, at www.repl.global and in the website of the stock Exchange i.e www.nseindia.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The proceeding of the AGM is deemed to be conducted at the Registered Office of the Company situated at 820, Antriksh Bhawan ,22 K.G Marg, New Delhi-110001. The instruction for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM.

Shareholders will have an opportunity to cast their votes remotely on the business set forth in the Notice of the AGM through Remote E-voting system. Additionally the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM(e-voting) .The detailed procedure for casting the votes through E-voting is provided in the Notice of the

Pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act 2013 read with rules framed thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations Disclosures Requirements) Regulations 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday 15th September 2023 to Thursday, 21st September 2023.

> For Rudrabhishek Enterprises Limited Vikas Gupta **Company Secretary**

Place: New Delhi

Date: 29th August 2023



INFORMATION REGARDING 09th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD. THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM")

Exchange Board of India.

In Compliance with the abovementioned circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report 2022-23 will be sent only through electronic mode to those Members whose e-mail address is registered with the Company/ Registrar and Transfer Agent / Depository an email at cs@venuspipes.com.

44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020, the Company is providing remote e-voting facility to its members, to enable them to

Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's RTA, Kfin Technologies Limited, Unit: Venus Pipes and Tubes Limited, Selenium, Tower B, Plot No. – 31 and 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad (T.G.) 500 032 Email ID: einward.ris@kfintech.com.

voting or for attending the AGM through VC/OAVM.

Members | Folio No.. Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front holding in and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (selfphysical attested scanned copy of Aadhar Card)

Members DP ID and Client ID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name holding in of shareholder, client master or copy of Consolidated Account statement, demat PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested

scanned copy of Aadhar Card) For Venus Pipes & Tubes Limited

Pavan Kumar Jain

Company Secretary (Membership No.: A66752)

DIGISPICE

DiGiSPICE Technologies Limited

Registered Office: 622, 6th Floor, DLF Tower A. Jasola Distt, Centre, New Delhi -110025

CIN: L72900DL1986PLC330369 Tel.: 011- 41251965; Email: complianceofficer@digispice.com; Website: www.digispice.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting ('AGM') of DiGiSPICE Technologies Limited (the 'Company') will be held through Video Conferencing ('VC') or Other Audio-Visual Means ('OAVM') on Thursday, 28th day of September, 2023 at 11:00 A.M. in compliance with General Circular 10/2022 dated 28th December, 2022 read with Circular dated 5th May, 2020, 8th April, 2020 and 13th April, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Circular dated 5th January, 2023 read with Circular dated 12th May, 2020, issued by SEBI (hereinafter collectively referred as the 'Circulars'), to transact the businesses that will be set forth in Notice of the AGM.

In compliance with the Circulars and relevant provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

- (a) 35th AGM of the Company will be held through VC/OAVM without physical presence of shareholders at a common venue;
- (b) Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under
- (c) Notice of 35th AGM along with Annual Report for financial year 2022-23 will be sent only by electronic mode to those shareholders whose email address is registered with the Company/ Depositary Participant(s) ('DP'); and
- (d) aforesaid documents will also be made available on the website of the Company, www.digispice.com and on the website(s) of the stock exchanges where the shares of the Company are listed viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

and to cast votes through remote e-voting and e-voting will be provided in Notice of the AGM. Members are requested to update their e-mail ID with their DP in case the shares are held in demat mode; and in case shares are held in physical mode, with MAS Services Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company ('RTA') or the Company, by submitting duly filled in and completed Form

ISR-1, to ensure that the documents reach them on their preferred email address. A Member is entitled to receive Notice of the AGM and Annual Report in physical mode upon making a request for the same to the Company from their registered e-mail ID. SEBI vide Circular dated 16th March, 2023 has mandated furnishing of PAN, KYC, nominations, contact

details, bank details and signature by holders of physical securities to RTA. Therefore, Members holding shares in physical form are requested to provide aforesaid documents alongwith Form ISR-1 to RTA at T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase II, New Delhi-110020. The Members can download the applicable forms mentioned in the aforesaid SEBI Circulars from the website of the Company or RTA website (www.masserv.com). The Members are requested to note that in case of failure to complete/ update the KYC registration as per aforesaid SEBI Circular or in case PAN is not linked with Aadhaar, folios of such Members shall be frozen on or after 1st October, 2023 by RTA.

For DiGiSPICE Technologies Limited

Ruchi Mehta Company Secretary and Compliance Officer

Date: 29/08/2023

Place: Bhilwara

By Order of the Board

Place: Hyderabad

Date: August 30, 2023

September 19, 2023 (Tuesday).

memorandum and estimated timelines.

PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED

IP Registration No. IBBI/IPA-001/IP-P00095/2017-2018/10195

Ravi Sankar Devarakonda

(AFA is valid upto 09.08.2024)

Liquidator

@ Piramal Corporate Identity Number ("CIN"): L24110MH1947PLC005719 Registered Office: Piramal Ananta, Agastya Corporate Park, Opposite Fire Brigade, Kamani Junction, LBS Marg, Kurla (West), Mumbai 400070; Tel. No.: +91 22 3802 3000/4000 Fax No.: +91 22 3802 3884; E-mail; complianceofficer.pel@piramal.com Website: www.piramal.com; Company Secretary: Mr. Bipin Singh

Corrigenda and Notice to Eligible Shareholders - Buyback of Equity Shares

This corrigenda is in continuation of and should be read in conjunction with the Letter of

COASTAL PROJECTS LIMITED

Invitation for Expression of Interest towards sale of Coastal Projects Limited

as a Going Concern under Liquidation

Corporate Office Address:

Plot No. 305-B, Road No. 78, Film Nagar, Jubilee Hills, Hyderabad 500033

Further to the directions of Hon'ble NCLT, Cuttack towards sale of Coastal Projects

Limited as a going concern under Liquidation through E- Auction Process, I, as the

Liquidator, hereby invite Expression of Interest (EOI) from interested parties under

Regulation 32(A) of the Liquidation Process Regulations, Insolvency and Bankruptcy

Interested parties can refer to the website www.coastalprojects.co / or send an email

to liquidator.cpl@in.ey.com for further details regarding eligibility criteria, process

memorandum & estimated timelines. The last date for submission of EOI is

The Liquidator may in his absolute discretion, but without being under any

obligation to do so, update or amend the eligibility criteria, process

Offer dated August 27, 2023 ("Letter of Offer") and dispatch advertisement dated August 28, 2023. Eligible Shareholders are requested to take note that the footnote appearing under the table in paragraph 19.5.6 on page 57 of the Letter of Offer stands revised and should be read as follows (the entire paragraph 19.5.6 of the Letter of Offer has been reproduced below for ease of

"19.5.6 Based on the above Buyback Entitlements, the ratio of Buyback for both categories is as follows: Category of Shareholders Ratio of Buyback* Reserved category 7 (Seven) Equity Shares out of every 47 (Forty Seven) for Small Shareholders fully paid-up Equity Shares held on the Record Date. General category for all 1 (One) Equity Shares out of every 19 (Nineteen) fully other Eligible Shareholders paid-up Equity Shares held on the Record Date. *The above Ratio of Buyback is approximate and providing indicative Buyback Entitlement, Any computation of entitled Equity Shares using the above Ratio of Buyback may provide a slightly

Eligible Shareholders should note there is no change in the Buyback Entitlement, the ratio of Buyback and the Buyback Entitlement sent to the shareholders. The contents and other terms in the Letter of Offer remain unchanged.

different number due to rounding-off. The actual Buyback Entitlement factor for Reserved.

category for Small Shareholders is 14.888791363367% and General category for all other

Capitalised terms used herein and not defined herein shall have the same meaning as ascribed in the Letter of Offer.

For Piramal Enterprises Limited Mr. Bipin Singh Company Secretary CONCEPT

UNIVASTU

Date: August 29, 2023 Registered office: Bunglow No. 36/B, Madhav Baug, Shivtirth Nagar,

Kothrud, Pune - 411038, Ph.: 020 2543 4617, Email id: cs@univastu.com, Website: www.univastu.com, CIN-L45200PN2009PLC1333864 NOTICE OF 14TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

Place: Mumbai

Notice is hereby given that the 14th Annual General Meeting ("AGM") of the members of UNIVASTU INDIA LTD ("the Company") is scheduled to be held on Tuesday, 26" September 2023, at 11:00 a.m. (IST) at the Registered Office of the Company located at Bungalow No 36/B, Madhav Baug, Shivtirth Nagar, Kothrud, Paud Road, Pune- 411 038, Maharashtra, India to transact the businesses as set forth in the Notice of AGM. Further notice is also hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and

Eligible Shareholders is 5.299272400993%."

Regulation 42 of the LODR Regulations, 2015 the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 20 September, 2023 to Tuesday, 26 September, 2023, (both days inclusive) for the purpose of AGM. In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular; the electronic copy of the Notice of 14" AGM and the Annual Report for the Financial year 2022-23 of the Company will be sent through electronic mode to all

those Members whose e-mail address(es) are registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent (R & T Agent) viz. Big Share Services Private Limited or with their respective Depository Participant(s). The Notice of the 14" Annual General Meeting along with the Annual Report for the Financial year 2022-23 are also available on the Company's website www.univastu.com and on the website of the Stock Exchange on which the Company's shares are listed viz. National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com and website of National Securities Depository Limited ("NSDL") www.evoting.nsdl.com. Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and

Administration) Rules, 2014, Secretarial Standards (SS-2) on General Meetings and Regulation 44 of the Regulations, the Company is providing the facility to its members holding shares on 19 September, 2023, being the cutoff date to exercise their right to vote on all resolutions as set form in the Notice of AGM. Members can vote either through remote e-voting or e-voting at the AGM. Instructions for remote e-voting, e-voting at the time of AGM. The Company has engaged services of NSDL to provide remote e-voting facility. The details of remote e-voting are as under: The remote e-voting period commences on Saturday, 23 September, 2023 at 9.00 a.m. (IST) and ends on

Monday, 25 September, 2023 at 5.00 p.m. (IST). 2. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the notice is

- sent through e-mail and holding shares as of the cut-off date, i.e., 19 September 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or cs@univastu.com or rajeshm@bigshareonline.com. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details / Password" option available on www.evoting.nsdl.com A member can also use OTP (One time password) based login for casting the votes on the e-voting system
- 3. The members are also informed that:
- The remote e-voting shall not be allowed beyond Monday, 25 September, 2023 at 5.00 p.m. b. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but
- shall not be allowed to vote again at the AGM.
- c. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the notice is sent through e-mail and holding shares as of the cut-off date, i.e., 19 September 2023, shall be entitled to avail the facility of either remote e-voting or e-voting at the AGM.

registered with the Company / R & TAgent/DP is available in the Notice of AGM

Members, who need assistance before or during the AGM or in case of any gueries, may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) on NSDL website or contact NSDL on evoting@nsdl.co.in / 1800-222-990 or contact

Ms. Sarita Mote, Assistant Manager – NSDL at saritam@nsdl.co.in / 022-24994890.

Place: Pune Date: 28 August, 2023

MADHYA BHARAT AGRO PRODUCTS LIMITED CIN: L24121RJ1997PLC029126

Email: secretarial@mbapl.com Website: www.mbapl.com NOTICE OF 26th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

Registered Office: 5-O-21, Basement,

and SEBI (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015 read with general circular no. 14/2020 dated 08th April 2020, general circular no. 17/2020 dated 13th April 2020, general circular no. 20/2020 dated 05th May 2020, general circular no. 02/2021 dated 13th January 2021 general circular no. 21/2021 dated 14th December 2021, general circular no. 02/2022 dated 05th May 2022 and general circular no. 11/2022 dated 28th December 2022 issued by ministry of corporate affairs read with SEBI circular dated 5th January 2023 and other relevant circulars of SEBI, from time to time (hereinafter collectively referred to as "SEBI circulars"), the 26th Annual General Meeting (AGM) of the company will be held through Video Conferencing ("VC") on Tuesday 26th September 2023 at 11:00 A.M. (IST) to transact the business that will be set forth in the notice

In accordance with the aforesaid Circulars, the Notice and the Annual Report for the financial year 2022-23, will be sent only through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants (DPs). The Notice and Annual Report will also be available on the website of the Company at www.mbapl.com and on the website of National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com. Further, members can join and participate in the AGM through VC facility only. The instructions for joining and manner of participation in the AGM will be provided in the notice. Members attending the AGM through VC shall be counted for the purpose of reckoning the guorum under section 103 of the Companies act, 2013.

In order to send Notice, Annual Report and other Communications to the members in electronic form, Members who have not yet registered their email address are requested to register the same immediately in respect of shares held in electronic form with the depository through their depository participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to Company's Registrar and Share Transfer Agent, Bigshare Services Private Limited at investor@bigshareonline.com The Company will provide remote e-voting facility to all its members to cast their votes on

of voting through e-voting system during the AGM. The detailed procedure for casting votes

the resolutions set forth in the notice. Additionally, the company will also provide the facility

(Pallavi Sukhwal) Company Secretary & Compliance Officer

For Madhya Bharat Agro Products Limited

 The procedure of electronic voting and/or attending the AGM is provided in the Notice of AGM. The manner of registration of e-mail addresses of those members whose email addresses are not

By order of the Board of Directors For Univastu India Limited Sakshi Tiwari

Company Secretary

R.C. Vyas Colony, Bhilwara, 311001 Rajasthan

In compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013, rules made thereunder

of AGM ('Notice').

through remote e-voting/ e-voting at the AGM shall be provided in the Notice. The Shareholders may note that the final dividend will be paid electronically to those shareholders who have updated their bank account details. For shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrants/ demand drafts / cheque will be sent out to their registered addresses once the postal facility is available. To avoid delay in receiving the dividend, shareholders are requested to update their KYC with their depositories (where shares held in dematerialized mode) to receive dividend directly into their bank account on the payment date.

.epapr.in

(up to 16:00 hrs.) Last Date & Time of Submission | On 14.09.2023 up to 17:00 hrs. Date & Time of Opening On 15.09.2023 at 11:30 hrs. For eligibility criteria and other details please log on to www.concorindia.com of eprocure.gov.in or www.tenderwizard.com/CCIL. Bidders are requested to visit the websites regularly. Executive Director/Area-II NMDC Limited 0 (A Govt. of India Enterprise) 'Khanij Bhavan', 10-3-311/A, Castle Hills, Masab Tank, Hyderabad-500028 CIN:L13100TG1958GOI001674. CONTRACTS DEPARTMENT

Tender Enquiry No.: HO(Contracts)/NCP&DHCS/DEP-14&11C/945 Dated: 30-08-2023 NMDC Limited, A "NAVARATNA" Public Sector Company under Ministry of Steel, Govt. of India, invites online bids through MSTC Portal from experienced reputed and competent domestic bidders for the work of "Design, Engineering, Manufacture, Supply, Erection, Testing and Commissioning of New Crushing Plant & Downhill Conveyor System for Deposit 14 and 11C of Bailadila Iron Ore Mines, NMDC, Kirandul Complex (Chhattisgarh) on Turnkey basis" The detailed NIT and Bid documents can be viewed and / or downloaded from

30-08-2023 to 30-09-2023 from following website links:

 NMDC website https://nmdcportals.nmdc.co.in/nmdctender Central Public Procurement Portal (CPP PORTAL) http:// www.eprocure.gov.in/epublish/app and . MSTC portal - https://www.mstcecommerce.com/eprochome/nmdc

buyer login.isp and search NMDC Tender Event No. NMDC/HO/34/23-24/ET/342. For further help refer to 'vendor guide' given in MSTC website. The bidders are requested to submit their bids online through MSTC portal only. The details of submission of bid through online are given in NIT The Bidders on regular basis are required to visit the NMDC's website / CPP Portal / MSTC website for corrigendum, if any, at a future date. For further clarification, the following can be contacted:

 CGM (Project, Contract & Steel), NMDC Limited, Hyderabad Tel No +91-040-23533536, email: contracts@nmdc.co.in

Sr. General Manager & Head-Contract, M. N. Dastur & Company (P) Ltd. KolKata Ph: +91-033-2225 0500/5420, email:Souvik.G@dastur.com **Executive Director (Works)** verus venus pipes & tubes limited

(Formerly known as VENUS PIPES & TUBES PRIVATE LIMITED) CIN NO. L74140GJ2015PLC082306 Regd. Office: Survey No. 233/2 and 234/1, Dhaneti, Bhui (Kachchh - 370020) Gujarat, India | Tel : +91 2836 232183 | 84 | E-mail: cs@venuspipes.com

The 09th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Venus Pipes & Tubes Limited ("the Company") will be held on or before due date i.e. 30/09/2023 (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and rules made thereunder read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021, 19/2021 dated December 8 2021, 21/2021 dated December 14, 2021, 2/2022 dated May 5, 2022 and 10/2022 dated December 28, 2022 (collectively the "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by Securities and

Participants / Depositories. Members may note that the Notice and Annual Report 2022-23 will also be available on the Company's website www.venuspipes.com, website of the Stock Exchange i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com. The Company shall send physical copy of the Annual Report 2022-23 to the members who specifically request for the same by sending In compliance with Section 108 of the Act, read with the corresponding rules, Regulation

cast their votes electronically through the facility provided by Central Depository Services (India) Limited. Additionally, the facility for voting during the AGM will also be made available. Members present in the AGM through VC/OAVM and who have not casted their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during the AGM. Detailed instructions for remote e-voting, e-voting during the AGM and attending the AGM through VC/ OAVM will be provided in the Notice of the AGM.

Members who have not registered their email address are requested to send a request to the Registrar and Transfer Agents of the Company, Kfin Technologies Limited at email: einward.ris@kfintech.com or to the Company at cs@venuspipes.com providing the following details to obtain the AGM documents or user-id and password for remote e-

Date: 29.08.2023 Place: Dhaneti

The Company shall provide remote e-voting facility to all its shareholders to cast their votes on all the resolutions to be set out in Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting

Date: 29th August, 2023

through e-voting system during the AGM. The detailed instructions / procedure to participate in the meeting

Place: Noida

DIGISPICE

डिजिस्पाइस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 622, 6ठा तल, डीएलएफ टॉवर-ए, जसोला डिस्ट्रक्ट सेंटर, नई दिल्ली -110025 सीआईएन: L72900DL1986PLC330369

टेलीफोनः 011-41251965, ईमेलः complianceofficer@digispice.com; वेबसाइटः www.digispice.com

सूचना

एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि डिजिस्पाइस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (कम्पनी) की 35वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') अथवा अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से बृहस्पतिवार, 28 सितम्बर, 2023 को 11:00 बजे पूर्वाह, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी सामान्य परिपन्न 10 / 2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 के साथ पठित परिपन्न दिनांकित 5 मई, 2020, 8 अप्रैल, 2020 एवं 13 अप्रैल, 2020 तथा सेबी द्वारा जारी परिपत्र दिनांकित 5 जनवरी, 2023 के साथ पठित परिपत्र दिनांकित 12 मई, 2020 (इसके पश्चात सामृहिक रूप से 'परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में, कम्पनी के शेयरधारकों को भेजी जाने वाली एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों के सम्पादन हेत् किया जाएगा।

परिपत्रों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में:

- (ए) कम्पनी की 35वीं एजीएम एक सामान्य स्थान पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी:
- (बी) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के प्रयोजन हेत् संगणित किया जाएगाः
- (सी) वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक रिपोर्ट के साथ 35वीं एजीएम की सूचना केवल उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजी जाएंगी, जिनका ईमेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('डीपी') के साथ पंजीकृत है; तथा
- (डी) उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट, www.digispice.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है, की वेबसाइट(ऑ) अर्थात् www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

कम्पनी अपने सभी शेयरधारकों को एजीएम की सूचना में निर्धारित किए जाने वाले सभी प्रस्तावों पर वोट डालने हेत् रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रही है। बैठक में भाग लेने और रिमोट ई-वोटिंग तथा ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के विस्तृत निर्देश प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान किए जाएंगे।

यह सुनिश्चित करने हेत् कि दस्तावेज उन्हें उनके सर्व-प्रधान ईमेल पते पर पहुंच जाएं, सदस्यों से अनुरोध है कि यदि शेयर डीमैट मोड में प्रतिरक्षित हैं तो वे अपने डीपी के साथ अपनी ई-मेल आईडी अपडेट करें; और यदि शेयर भौतिक मोड में प्रतिरक्षित हैं, तो मास सर्विसेज लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') या कम्पनी के साथ विधिवत भरे हुए फॉर्म आईएसआर-1 द्वारा अपडेट करें। सदस्य अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी से कम्पनी को अनुरोध करने पर एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट भौतिक तौर पर प्राप्त करने हेतु अधिकृत हैं।

सेबी ने 16 मार्च, 2023 के परिपत्र के माध्यम से भौतिक प्रतिभृतियों के धारकों द्वारा आरटीए को पैन, केवाईसी, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक विवरण और हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। अतः भौतिक रूप में शेयर प्रतिरक्षित करनेवाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे फॉर्म आईएसआर-1 सहित उपरोक्त दस्तावेज आरटीए को टी-34, दूसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज II, नई दिल्ली-110020 पर उपलब्ध कराएं। सदस्य उपरोक्त सेबी परिपत्रों में उल्लिखित लागू फॉर्म कम्पनी की वेबसाइट या आरटीए की वेबसाइट (www.masserv.com) से डाउनलोड कर सकते हैं। सदस्यों से यह ध्यान करने का अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार केवाईसी पंजीकरण को पुराध्अद्यतन करने में विफलता के मामले में या यदि पैन आधार से जुड़ा नहीं है, तो ऐसे सदस्यों के फोलियो 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद आरटीए द्वारा फ्रीज कर दिए जाएंगे।

> कृते डिजिस्पाइस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड रूचि मेहता

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

UNIVERSAL OFFICE AUTOMATION LIMITED

CIN: L34300DL1991PLC044365 Regd. Office: 806, Siddhartha, 96, Nehru Place, New Delhi-110 019

Tel: 011 -26444812, Website: www.uniofficeautomation.com; Email ID: investoroa@hcl.com NOTICE is hereby given that the Thirty First (31") Annual General Meeting of the

members of the Company will be held on Tuesday, the 26th September, 2023 through VC OAVM at 3:30 P.M. IST deemed to be held at the Registered office of the Company at 806, Siddharth, 96, Nehru Place New Delhi -110019 to transact the ordinary business as set out in the Notice of AGM. Pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013, Rule 10 (1) of Companies

(Management and Administration) Rules 2014 and as per Regulation 42 of SEBI (Listing) Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby inform you that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 18.09.2023 to Thursday, 28.09.2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) the Company is providing facility of remote e-voting to its members in respect of the business to be transacted at the AGM. The e-voting will commence on 23.09.2023 at 9.00 AM and end on 25.09.2023 at 5.00 PM. Members, whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. 21.09.2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting

Pursuant to The MCA Circular no 10/2022 dated December 28, 2022 read with SEB Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 electronic copies of the Annual Report for the year 2021 22 and notice convening the 31" AGM of the company has been sent to all the members whose email address are registered with the Company/Depository participants. The same can be accessed at the website of the company at www.uniofficeautomation.com and on the website of stock exchange at www.bseindia.com. Detailed instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for evoting for the resolutions set out in this notice:

- In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (selfattested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of
- Aadhar Card) by email to admin@skylinerta.com and/or investoroa@hcl.com In case shares are held in demat mode, please provide DPID – Client ID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (selfattested scanned copy of Aadhar Card) to admin@skylinerta.com and/or to investoroa@hcl.com

Any member who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut- off date i.e. 21.09.2023 may obtain the login ld and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in and/or to investoroa@hcl.com

प्लॉट नंबर 2ए/381, फ्लैट नंबर: एस2, दूसरी

वसंधरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन कोङ

प्लॉट नंबर 25, फ्लैट नंबर 101, पहली मंजिल,

साई गार्डन, मेट्रो एन्क्लेय, शाहबेरी, दादरी, उत्तर

पलैट नंबर टी-2, तीसरी मंजिल, एम.आई.जी,

छताधिकारों के बिना, प्लॉट नंबर 2ए/75, सेक्टर

2ए, वसंधरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201012

प्रदेश पिन कोड 203207

मजिल, एलआईजी, बैक साइड, सेक्टर 2ए. 21-11-2022

By Order of the Board/-For Universal Office Automation Limited

August 30, 2023 New Delhi

23. अशोक कुमार/

24. संजीव कुमार/

25. रुबीना रॉबर्ट /

डोनाल्ड दास/

गुढ़गांव शाखा

रेखा शर्मा/

मेरी अशोक /

गुरुगांव शाखा

यूपी0510610003487/

यूपी0510610004187 /

बीआई0510610007497 /

Naina Luthra Company Secretary & Compliance Officer

21-11-2022

21-11-2022

पूर्वोत्तर रेलवे

वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ मण्डल द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ मण्डल वं विभिन्न स्टेशनों के लिये विज्ञप्ति सूचन वाणिज्यिक विज्ञापन हेत् ठेका प्रदान करने के लिये आमंत्रित की जा रही है। आक्शन रं सम्बन्धित अन्य जानकारी वेबसाइट www.ireps.gov.in (E-Auction Module पर उपलब्ध है। निविदा सुचना संख्या स्टेशनी की सची एवं उपलब्ध स्थान का विवरण

टेण्डर से सम्बन्धित अन्य जानकारी वेबसाइट www.ireps.gov.in(E-Auction Module) ठेके की अवधि: 03 वर्ष

वात्री सविधा सम्बन्धित शिकायत हेत् मो० नं० 09794845955 पर एसएमएस करें।

ट्रेनों में बीड़ी/सिगरेट न पियें।

तिथि: 29 अगस्त, 2023

स्थानः नोएडा

GIC HOUSING FINANCE LTD. प्रधान कार्यालय : नेरानल इंरयोरेंस बिल्डिंग, 6ठवां तल, 14, जमरोदनी टाटा मार्ग,

चर्च गेट मंबई-400020

गुड़गांव कार्यालय : यूनिट 3001-02, एमजीएफ मेट्रोपोलिस मॉल, एमजी रोड, गुड़गांव-122002 दुरभाष सं. : 0124-4008202, 0124-4008280, 0124-4008208

संदर्भ :- सरफॉएसि अधिनियम 2002 के अंतर्गत नियमावली के नियम 8 के उप-नियम (1) के अंतर्गत अधिग्रहण सचना जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने जीआईसीएचएफएल के प्राधिकत अधिकारी के रूप में, सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत, इसकी संबंधित तिथियों पर निर्गत मांग सूचना के अनुपालन में, आप / उधारकर्ता, निम्न नामित, को संबंधित सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर बकाया देयराशियों का भुगतान करने के लिये कहा गया था। चूंकि आप सभी अनुबंधित समय के अंदर उक्त बकाया देयराशियों का भुगतान करने में विफल

प्लॉट नंबर 93, दूसरी मंजिल, छताधिकारों के बिना, 21-11-2022

मंजिल, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर 21-11-2022

प्रदेश-201014

खसरा नंबर 104/15 और खसरा नंबर 104/16,

ग्राम – पालम, राजापुरी, उत्तम नगर, नई दिल्ली –

मकान संख्याः नीति खंद -3/478, संपूर्ण तीसरी

ढीआई0510810003884 /

यूपी0610610002495/

www.readwhere.com

गुड़गांव शाखा

संजय कुमार/

गुड़गांव शाखा

22. सचिन श्रीवास्तव/

19,66,582/-

14,02,405/-

20,24,733/-

14,55,174/-

9	साराया का मुगतान करन	क । लय कहा गया था। शूक आप रामा अनुमार	वत शबय क अद	र उपत्त बकाया दयर	।।शया का मुगतान व	करण म ।वजल		पुक्रमाच शाखा					
市市	युक ह, अतएव जाआइसा प्रावधान के अंतर्गत प्रदत प्रेग्रहण कर लिया है। स्थारकर्ता एवं सह-उधारकर्ता का	एचएफएल ने सरफॉएसि अधिनियम 2002 के अंतर तानुसार अधिकार धारण करने तथा उसके प्रयोग बंधककृत संपत्ति का पता	ात विरोधत नियम गितर्गत, यहाँ इस माँग सूचना निर्गतन	में निम्न वर्णितानुसार बकाया देयराशियां (मांग सूचना के	बकाया ३१.07.2023	का साकातक	26.	. अमित श्रीवास्तव/ डीआई0510610002596/ गुड़गांव शाखा	खसरा नंबर-1151/3, पुराना खसरा नंबर- (2752/2075/2024/1666/8), प्लॉट नंबर-16 16ए, फ्लोर नंबर: टीएफ फ्रंट, संपत्ति क्रमांक-29डी/4 29, महरीती, वार्ड नंबर-1, हीज खास, नई दिल्ली-110030		15,14,597/-	15,69,771/-	25/08/2023
ei.	नाम/ऋण फाइल नं. /शाखा नाम		की तिथि	अनुसार) (राशि रु. में)	के अनुसार, वसूली एवं विधिक शुल्क छोड़कर		27.	. तेजपाल / ऐगु / एक्श्वार0510610004732 / गुड़गांव शाखा	पलैट नंबर यूजी-003, अपर ग्राउंड फ्लोर, छताधिकारों के बिना, खेयट नंबर 2819, खाता नंबर 3824, किला नंबर 11313/165,	21-11-2022	20,74,332/-	21,28,570/-	25/08/2023
1.	राहुल कुमार/ कूपी0610610002127/ गुड़गांव	पहीट नंबर-1402, 14वीं मंजिल, टावर-पीओपी, प्लॉट नंबर-जीएच-16ई, सेक्टर-1, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301	21-11-2022	9,41,179/-	9,14,409/-	25/08/2023	28.	अनिल/रीना रॉय/	11318/165, 11319/165, 11320/165, राजेंद्र पार्क, गुरुग्राम–122001 प्लॉट नंबर 25, गुरुततिल नंबर 27, किला नंबर		26,30,735/-	26,18,371/-	25/08/2023
2.	संतोष कुमार ठाकुर/ यूपी0510610004411/ गुड़गांव	मकान नंबर—67, खसरा नंबर—580, विपियाना बुजुर्ग, दादरी, गीतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश—201009	21-11-2022	21,45,093/-	20,75,864/-	25/08/2023		कीआई0510610005465/ गुरुगांव शाखा	11/3, संपूर्ण निर्मित तीसरी मंजिल (पूर्वी तरफ), छताधिकारों के साथ, संपत्ति संख्या—डब्ल्यूजेड—1679, शक्रूर पुर, रानी बाग, शक्रूर बस्ती, दिल्ली —110034		20,00,1001	20,102.11	
3.	जदय चंद्र झा/ सुशीला झा/ बीआई0510810003707/	पलैट नंबर-बैंक साइड अपर ग्राउंड फ्लोर (सामने से एलएचएस), छताधिकारों के बिना, संपत्ति सं. -आरजेड-68 व 69, खसरा नं18/10, नन्हें	21-11-2022	12,30,773/-	10,97,962/-	25/08/2023	29.	अवतार सिंह / लक्ष्मी मेहरा / राजू (गारंटर) / डीआई0510610004257 /	ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, छताधिकारों के बिना, डब्ल्यूजेड-92, प्लॉट नंबर-92, खसरा नंबर 10/21/1, चौखंडी, राम नगर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110018	21-11-2022	30,15,927/-	31,43,333/-	25/08/2023
4.	गुड़गांव अन्विनी सिंह/ नीतू सिंह/ कृपी0610610006131/	पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 पलैट नंबर-टीएफ-6, तीसरी मंजिल, छताधिकारों के बिना, प्लॉट नंबर-7, 8 व 9, खसरा नं-58 व 59, यूनियन रेजिडेंसी फेज-2, अकबरपुर बेहरानपुर,		15,08,231/-	15,00,492/-	25/08/2023	30.	गुड़गांव शाखा निहाल सुंदास/ पुष्पा/ डीआई0510610005139/ गुड़गांव शाखा	प्लॉट नंबर आरजेंड-1/3, 4, तीसरी मंजिल, पीछे की ओर, छताधिकारों के साथ, खसरा नंबर 17/9, मंटियाला, सुखी राम पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली-110059	21-11-2022	20,99,482/-	21,55,407/-	25/08/2023
5.	गुरुगांव विशाल प्रसाद/ मधु प्रसाद/ यूपी0610610003713/ गुरुगांव	गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 फ्लैट नंबर-301, तीसरी मंजिल, वेलकम सिटी, फ्लॉट नंबर-47, 48 व 49, खसरा नंबर-160-ए, शाबेरी, दादरी, उत्तर प्रदेश-201301	21-11-2022	18,05,823/-	18,12,945/-	25/08/2023	31.	. अवतार सिंह / लक्ष्मी मेहरा / राजू (गारंटर) / डीआई0510610004257 /	ग्राउंड और फर्स्ट पलोर, छताधिकारों के बिना, डब्ल्यूजेड-92, प्लॉट नंबर-92, खसरा नंबर 10/21/1, चीखंडी, राम नगर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110018		30,15,927/-	31,43,333/-	25/08/2023
В.	हितेंद्र कुमार पांडे/रेखा पांडे/ कूपी0510610003160/ गुड़गांव	पलैट नंबर— 203. दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर—17, खसरा नंबर—51, अनंत हाइट्स, गढी चीखंडी, दादरी, उत्तर प्रदेश—203207	21-11-2022	10,10,934/-	10,14,599/-	25/08/2023	32.	गुड़गांव शाखा - निहाल सुंदास / पुष्पा / वीआई0510610005139 / गुड़गांव शाखा	प्लॉट नंबर आरजेड-1/3, 4, तीसरी मॉजेल, पीछे की ओर, छताविकारों के साथ, खसरा नंबर 17/9, मटियाला, सुखी राम पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली-110059	21-11-2022	20,99,482/-	21,55,407/-	25/08/2023
	रीना कुमारी/ आनंद प्रकाश सिंह/ यूपी0510610004654/ गुड़गांव	पलैट नंबर-401, चौथी मंजिल, प्लॉट नंबर-25, खसरा नंबर 154, शाबेरी, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-203207	21-11-2022	14,79,012/-	14,82,409/-	25/08/2023	33.	. वीरेंद्र कुमार/ मौडरश्री कुमारी/ यूपी0610610002034/ गुढ़गांव शाखा	पत्नेट नंबर-यूजी-6, यूजीएफ, प्लॉट नंबर-एफ-15ए, खसरा नंबर-156बी, साई उपवन, यूसुफपुर वकसाबेरी, नोएडा, दादरी, उत्तर प्रदेश-201301	21-11-2022	17,91,270/-	18,64,654/-	25/08/2023
	राडुल/मुन्नी देवी/ यूपी0510610005561/ गुड़गांव	पलैट नंबर-एफएफ-3, पहली मंजिल, पीछे की ओर, छताधिकारों के बिना, प्लॉट नंबर-3/958, सेक्टर-3, वसुंधरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201012	21-11-2022	17,50,541/-	17,56,888/-	25/08/2023	34.	अमित कुमार शर्मा / मधु तालान (गारंटर) / युपी06106100024	पलैट नंबर-106, अपर ग्राउंड पलोर, नंद रेजीडेंसी, प्लॉट नंबर-1, ब्लॉक-ए, खसरा नंबर- 191, नंद वाटिका, गिरधरपुर सुनारसी, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	21-11-2022	10,52,074/-	10,80,125/-	25/08/2023
9,	विश्वजीत पाल/अजय श्रीवास्तव (गारंटर)/ यूपी0510610006583/ गुडगांव	पलैट नंबर-टीएफ-2, तीसरी मंजिल, छताधिकारों के विना, प्लॉट नंबर-108-ए, खसरा नंबर-78 मिन. , कृष्णा वाटिका, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201009	21-11-2022	24,81,988/-	24,93,301/-	25/08/2023	35.	39 / गुड़गांव शाखा अजामुनी / शिखा त्यागी / यूगी0510610003582 /	पर्लंट नंबर एस.एफ310, दूसरी मंजिल, एम. आई.जी., छताधिकारों के बिना, खसरा नंबर 172,	100100000000000000000000000000000000000	13,25,899/-	13,19,961/-	25/08/2023
10.	रविशंकर पांढे / सीमा / यूपी0610610004189 / गुड़गांव	पलैट नंबर-103, प्रथम तल, श्री साई रेजीडेंसी, प्लॉट नंबर-3, खसरा नंबर-107, शांबेरी, दादरी, उत्तर प्रदेश-203207	21-11-2022	12,99,554/-	12,52,313/-	25/08/2023	36.	गुड़गांव शास्त्रा आदर्श सिंह परिहार/ युगी0510110007040/	राधा कृष्ण एन्वलेव, डासना, गाजियाबाद, पिन कोड 201001 फ्लैट नंबर-1402, 14वीं मंजिल, रिदम काउंटी/फ्यूबर एस्टेट, प्लॉट नंबर-जीएच-18	21-11-2022	21,76,892/-	21,98,477/-	25/08/2023
1.	पुनीत सहगल/ यूपी0610610002908/ गुड़गांव	पलैट नंबर-जी-3, ग्राउंड फ्लोर, वैक साइड, छताधिकारों के बिना, प्लॉट नंबर-सी-1/23, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन ।। भोपुरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005	21-11-2022	8,44,350/-	8,51,802/-	25/08/2023	_	गुँढगांव शाखा . संजीव कुमार झा/	ई, सेक्टर-1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201308 फ्लैट नंबर-सी-002, अपर ग्राउंड फ्लोर, लोटस				
	स्नेहल नंदा/ भव्या नंदा/ यूपी0610610002850/ गुढ़गांव	पलैट नंबर-यूजीएफ-02, अपर ग्रावंड फ्लोर, फ्लॉट नंबर-17, खसरा नंबर-51, अनंत हाइट्स, गढ़ी चीखंडी, दादरी, उत्तर प्रदेश-201301		14,80,586/-	14,83,471/-	25/08/2023		महालक्ष्मी झा / यूपी0510610004750 / गुरुगांव शाखा	पार्क, ब्लॉक-सी, खसरा नंबर-258-259-260-252-263, सूरजपुर, नोएख, गीतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301	21-11-2022	21,04,335/-	21,20,002/-	25/08/2023
_	जुक्गाय ललित घोनी/चंद्रा/ मूपेश कुमार (गारंटर)/ डीआई0510610004897/ गुडगांव शाखा	तीसरी मंजिल पीछे की ओर, छताबिकारों के साथ, प्लॉट नंबर डी-3, खसरा नंबर 363, विदापुर, विश्वास पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली- 110059	21-11-2022	7,45,202/-	7,26,939/-	25/08/2023		विजयपाल ओम्झकाश सिंह/ मंजू भाटी/ यूपी0610610005651/ गुडगांव शाखा	फ्लैट नंबर-यूजी-06, अपर ग्राउंव फ्लोर, टावर-बी, आमंत्रण, खसरा नंबर-502, देवला, दादरी, गीतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-203207	21-11-2022	5,53,129/-	5,41,953/-	25/08/2023
14.	सी संजय/ऐश्वर्य चेल्लाकृष्य संजय/ यूपी0610610001857/ गुड़गांव शाखा	पलैट नंबर एफ-7, पहली मंजिल, छताधिकारों के बिना, प्लॉट नंबर एफ-15ए, खसरा नंबर-156-बी, साई उपवन, यूसुफपुर चक्साबेरी, दादरी, गीतम बुद्ध नगर-201309	21-11-2022	8,50,179/-	8,71,912/-	25/08/2023	39.	विजय/ यूपी0610610006835/ गुड़गांव शाखा	पलैट नंबर-ए-109, पहली मंजिल, एंड्रोमिडा प्लैनेट बन, टॉबर-ए, प्लॉट नंबर-जीएव-07, कोयल एक्लेव, भोपुरा, आई.ई. साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010	21-11-2022	23,54,967/-	23,79,763/-	25/08/2023
	शैलेन्द्र सिंह यादव/ यूपी0610610002516/ गुड़गांव शाखा	पलैट नं. एस एफ-1, दूसरी मंजिल, एलआईजी, प्रॉट साइड, छताधिकारों के विना, प्लॉट नंबर-1/209, सेक्टर 1 वसुंबरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201012 पलैट नंबर यजी-002, कपरी ग्राउंड फ्लोर,	21-11-2022	20,12,666/-	19,72,062/-	25/08/2023	40.	बलवीर/राजबीरी/ यूपी0610610005630/ गुढ़गांव शाखा	पलैट नंबर—104, ऊपरी भूतल, छताधिकारों के बिना, प्लॉट नंबर—20 और 21, खरारा नंबर—90, यूनियन रेजीडेंसी, अकबरपुर बहरामपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201001	21-11-2022	11,58,530/-	11,57,691/-	25/08/2023
0.	अमित कुमार मिश्रा/ ममता कुमारी तिवारी/ गौरव कुमार (गारंटर)/ यूपी0510610003842/ गुड़गांव शाखा	पलट नबर यूजा-002, कवरा व्राउळ पलार, छताविकारों के बिना, प्लॉट नंबर: 17 व 18, व्यसरा नं. 143- ए, यूनिक डोम, शाबेरी, दादरी, गीतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-203207		15,58,156/-	15,97,953/-	25/08/2023	41.	सिद्धार्थं कुमार सिंह/ सुष्मिता महाचार्जी (गारंटर)/ कुपी0510610004260/	पलैट नंबर-एस-5, दूसरी मॉजल, पीछे की और, छताधिकारों के बिना, प्लॉट नंबर-1/510, सेक्टर-1, वसुंधरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201012	21-11-2022	20,97,468/-	20,63,747/-	25/08/2023
7.	निर्मला कुमारी श्रीवास्तव/ वूपी0510610004408/ गुड़गांव शाखा	पलैट नंबर 201, दूसरी मंजिल, छताधिकारों के बिना, प्लॉट नंबर 67, खसरा नंबर 205, डैफोडिल शङ्ट्स, फ्रॅंड्स एन्वलेंद शाबेरी, दादरी, गीतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–203207	21-11-2022	6,78,739/-	5,06,485/-	25/08/2023	42.	गुरुगांव शाखा - सुमित कुमार/ युपी0510610003410/	फ्लैट नंबर-एफ-02, पहली मंजिल, छताधिकारोंके बिना, प्लॉट नंबर-37 और 38, ब्लॉक-डी, खसरा	21-11-2022	16,23,589/-	16,23,969/-	25/08/2023
18.	नितिन कपूर/ प्रिया कपूर/ यूपी0610610005922/ गुड़गांव शाखा	पलैट नंबर-111, अपर ग्राउंड पलोर, खसरा नंबर-230, टावर-सफायर-11, भंगेल बेगमपुर, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-203207	21-11-2022	6,91,970/-	6,70,592/-	25/08/2023	43.	गुँढगांव शाखा राकेश कुमार/	नंबर-1374, अक्षय एन्वलेव, रईसपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201002 पलैट नंबर एफएफ-203, प्रथम तल, लक्ष्मी		85404 4000.00	September 1	PERMANENTAL PROPERTY.
9.	जितेंद्र / हेमंत / बीना देवी / रवि कुमार	संपूर्ण तीसरी मंजिल, छताधिकारों के साथ, प्लॉट नंबर-एस-39, खरारा नंबर-49, बिंदापुर,	21-11-2022	15,89,640/-	16,40,413/-	25/08/2023	L	यूपी0510610002218/ गुड़गांव शाखा रजत त्यागी/	शाबेरी, दादरी, उत्तर प्रदेश-203207 संपूर्ण तीसरी मंजिल फॉट नंबर जी-65 केशद	21-11-2022	5,95,521/-	5,93,667/-	25/08/2023
20.	(गारंटर) / बीआई0510610006322 / गुढ़गांव शाखा	Total Control of the				रेखा त्यागी/ यूपी0610610003033/ गुड़गांव शाखा	कुंज कॉलोनी, सहनाई फार्म हाउस, रईसपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201012	<u>-13</u>	14,13,031/-				
4.	बृजेन्द्र नारायण मिश्रा / यूपी0610610002070 /	प्लॉट नंबर: ई-18, फ्लैट नंबर: टी-2, तीसरी मंजिल, साई उपयन, यूसुफपुर चकसाबेरी, दादरी, गीतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301	21-11-2022	13,88,639/-	14,41,054/-	25/08/2023			के अनुसार, उघारकर्ता को एतदद्वारा प्रतिभूति हिर रोक्त नामित उधारकर्ताओं को यह भी सूचित किया				

इं-आक्शन लॉट सुचना

निम्नवत है:--

क्रम सं.-01, आक्शन सूचना सं.: MSS-LJN LJN-HLTHK-11-23-1 (Misc-Static Services-Health Kiosk), स्टेशन: हेल्थ एटीएम, कार्य का विवरणः लखनऊ मण्डल वं गोरखपुर व लखनऊ स्टेशनों पर हेल्थ एटीएम के स्थापना रखरखाव व मेन्टेनेन्स के संबंध में आक्शन / लाट बन्द होने की तिथि व समय दिनांक 08-09-2023 को समय 13:30 बजे तक क्रम सं.-02, आक्शन सूचना सं.: Miss-LJN-LJN-Prkiosk-8-23-1 (Misc-Static Services- Promotional Kiosk), स्टेशन प्रमोशनल कियोरक, लखनऊ गोमतीनगर बादशाहनगर, कार्य का विवरणः लखनउ मण्डल के लखनऊ गोमतीनगर, बादशाहनगर स्टेशनो पर प्रत्येक के 48 एस्कायर फिट एरिया में प्रमोशनल कियोरक का प्रावधान करना । आक्शन / लाट बन्द होने की तिथि । समय: दिनांक08-09-2023 को समय 13:40 वजे तक। क्रम सं.-03, आक्शन सूचना सं. Miss-LJN-GKP-Prkiosk-7-23-1 (Misc Static-Services-Promotional Kiosk), ব্টাল गोरखपुर, कार्य का विवरणः लखनऊ मण्डल व गोरखपुर स्टेशन पर 48 एरकायर फिट एरिया प्रमोशनल कियोस्क का प्रावधान करना। आक्शन / लाट बन्द होने की तिथि व समयः दिनांव 08-09-2023 को समय 13:50 बजे तक।

आक्शन/लाट खुलने की तिथि व समय दिनांक 08-09-2023 को समय 13:00 बजे तक मण्डल रेल प्रबन्धक (वाणिज्य) मुजाधि / वाणिज्य-107

19,79,342/-

6,67,278/-

22,62,831/-

19,29,126/-

7,66,389/-

21,69,711/-

25/08/2023

25/08/2023

25/08/2023

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मुख्य परियोजना प्रबंधक, गति शक्ति, दक्षिण रेलवे, मदुरई-625016 द्वारा हमारी पोर्टल www.ireps.gov.in में निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के अनुसार कार्य के लिये ई-निविदा आमंत्रित है। निविदा के लिये आवेदन करने के इच्छुक निविदाकारों/ठेकेदारों को पोर्टल www.ireps.gov.in में सूचीकरण करना होगा तथा केवल ऑनलाइन निविदा स्वीकार की जाएगी।

ानावदा स.	काय का नाम	e, .	बाला प्रातमूत्त/ ईएमडी (रु. में)
GSMDU- 2023-04A-02	गित शक्ति यूनिट, मदुर्छ मंडल की परियोजनाओं के लिये परियोजना पर्यवेक्षण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये परियोजना पर्यवेक्षण सेवाएं एजेन्सी (पीएसएसए) की विद्युत		224100/-

निविदा बंद होने की तिथि: 9.9.2023

विस्तृत विवरणों के लिये वेबसाईट www.irreps.gov.in पोर्टल देखें।

वेबसाइट में बाद में अपलोड की गई किसी भी संशोधन अथवा सुधारों के लिये जारी की गई किसी भी शुद्धिपत्र की जाँच करने का दायित्व निविदाकारों का होगा तथा निविदा जमा करने के समय उसका विचार किया जायेगा। उप मुख्य अभियंता, गति शक्ति, मदुरई

Follow us on : twitter.com/GMSHallways

भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्यरत वरिष्ठ मंडल विद्यत अभियंता/ईैक्शन/थिरुवनंतपरम द्वारा निम्न कार्यों के लिये ई-निविद

आमंत्रित है:								
क्रम सं.	ई-निविदा सं.	कार्य का नाम	निविदा मूल्य (रु.)	धरोहर राशि भुगतान रु. में				
100	बी/टीआरडी- ओटी/08/2023-24 मद 1 तिथि: 25.8.2023	चंप्पड-कायनकुलम जंओएचई सिस्टम की गुणवत्ता में सुधार के लिये केवाईजे तथा सीएचपीडी स्टेशनों पर सिग्नल के सामने आईओएल का पुनर्स्थापन	6557395.87	131200/-				
2.	बी/टीआरडी- ओटी/08/2023-24 मद 2 तिथि: 25.8.2023	सीकेआई फीडिंग पोस्ट तथा ईआरएस./टीएसएस से ईआरएन/एसएसपी तथा ईआरएस यार्ड के क्षेत्राधिकार में कॉपर फीडर्स द्वारा ट्रैक फीडर के साथ एल्युमिनियम का विस्थापन।	4508218.70	90,200/-				

निविदा बंद होने की तिथि एवं समयः 22.09.2023 के 14.00 बजे। सम्पूर्ण विवरण तथा निविदा दस्तावेज http://www.irreps.gov.in पर उपलब्ध होगा।

वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (टीआरडी)/थिरुवनंतपुरम Follow us on : twitter.com/GMSRailways

punjab national bank

पंजाब नैशनल बैंक

मण्डल शस्त्रा, गाजियाबाद,

द्वितीय तल, केजे-13, कविनगर, गाजियाबाद - 201001, ई-मेल: cs8228@pnb.co.in

श्री धर्मेन्द्र चौधरी पुत्र श्री ओम वीर चौधरी, मकान नं. 100, सादिकपुर उर्फ काजी पुरा, गाजियाबाद-201001

श्री धर्मेन्द्र चौधरी पुत्र श्री ओम वीर चौधरी, प्लॉट नं. 07, दुकान नं. 73, चिरंजीव

विषयः बंधक मकान नं. प्लॉट नं. 7/73, पहली मंजिल, (बिना छत के अधिकार के) सेक्टर-07, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद से घरेलू सामान और अन्य गैर-बंधक वाली वस्तुओं को हटाने के लिए सूचना

यह सचित किया जाता है कि बैंक ने डीएम, गाजियाबाद, आदेश नं. 553/CRA/Se Act/Section-14 दिनांकित 15.12.2017 को बंधक मकान नं. प्लॉट नं. 7/73, पहली मंजिल. (बिना छत के अधिकार के) सेक्टर-07, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद का भौतिक कब्जा ले लिया है।

भौतिक कब्जा लेते समय यह नोट किया जाता है कि हमारे अनुरोध के बावजूद, आपने कुछ अंचार्ज माल / घरेलू सामान नहीं हटाया है, बैंक को यह संपत्ति ई-नीलामी के जरिए बेची गई है।

इसलिए, आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि इस पत्र की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर अंचार्ज माल / घरेलु सामान को हटा दें, अन्यथा, इसे कानून के अनुसार लावारिस के रूप में निपटाया जाएगा और इस संबंध में किए गए खर्च / आकस्मिक खर्च आपसे वसूल किए जाएंगे।

दिनांक: 28.08.2023, स्थान: गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

शिवमश्री बिजनेसेज लिमिटेड (पूर्व में सिद्धार्थ बिजनेस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)

सीआईएनः एल01403डीएल1983पीएलसी015704

पंजीकृत कार्यालय : ए-31, गली नंबर 2, मध् विहार, हनुमान मंदिर, दिल्ली (पूर्व) -110092 कंपनी कार्यालय : एफ-12, प्रथम तल, पुष्पक अपार्ट.. रत्नाकर-६ के सम्मुख, जीधपुर ग्राम, सैटेलाइट, अहमदाबाद-380015, दुरभाष सं.: 91 79 40063353,

ईमेल : info@shivamshree.com, वेबसाइट : http://www.shivamshree.com वार्षिक आम बैठक की सचना एतद्दवारा सचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 40वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन मंगलवार 2

सितंबर 2023 को अप. 03.00 बजे भा.मा.स. पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम' के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों का लेन-देन करने के लिए किया जाएगा। यह आयोजन, कॉर्पोरेर कार्य मंत्रालय द्वारा जारी क्रमशः सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 (दिनांक 8 अप्रैल 2020), 17/2020 (दिनांक 13 अप्रैल 2020) और 20/2020 (दिनांक 5 मई 2020), (''एमसीए परिपत्र(त्रों)'') और परिपत्र संख्य SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 और 02 / 2022 दिनांक 5 मई 2022 (सामूहिक रू में ''एमसीए परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12 मई 2020 15 जनवरी 2021 और 13 मई 2022 ("सेबी परिपत्र") के अनुपालन में, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के प्रावधान औ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली 2015 के विनियम 4 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रिजस्टर और शेयर हस्तांतरण बहिया शुक्रवार 15 सितंबर 2023 से लेक के मंगलवार 26 सितंबर 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुपालन वित्तीय वर्ष 2022–2023 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना, केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों कं भेजी गई है जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(ट्ंस) के साथ पंजीकृत हैं।

रिमोट ई-वोटिंग : कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियमावली 2015 के नियम 20 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमर बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली 2015 के विनियम 44 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जानेवाली रिमोर्व ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम सेएजीएम की सूचना में निर्धारित सभी व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक आम बैठव (एजीएम) में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में निहित हैं जिन्हें सदस्यों को भेज दिया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 और उसके अंतर्गत

दी गई नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, विवरण निम्नानुसार हैं 1. रिमोट ई-वोटिंग के उददेश्य हेतु कट-ऑफ तिथि 14 सितंबर 2023 है।

2. ई—वोटिंग की अवधि : ई—वोटिंग 23 सितंबर 2023 को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी 25 सितंबर 2023 को सायं 05.01 बजे समाप्त होगी। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त समय और तिथि के उपरांत रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी जिन व्यक्तियों ने एजीएम की सचना के प्रेषण के बाद शेयरों का अधिग्रहण किया है और कंपनी के सदस्य बन गए

और कट–ऑफ तिथि अर्थात् 14 सितंबर 2023 के अनुसार शेयर धारण कर रहे हैं, वे एजीएम की सूचना में उपलब्धानुसा रिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों और प्रक्रिया का पालन करके अपने वोट डाल सकते हैं। एक व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में केवल कट-ऑफ तिथि के अनुसार आता है, वह रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। हालांकि, यदि व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है, तं

मौजुदा युजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है। वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपने वोट नई डाले हैं, वे एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट डाल सकेंगे।

सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाले हैं, वे भी वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे एजीएम में फिर से अपने वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और शेयरधारकों द्वारा ई-मेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया एजीएम की सचना में प्रदान की गई है। यह कंपनी की वेबसाइट : www.shivamshree.com पर, सेंट्रव डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की वेबसाइट : www.evotingindia.com पर और बीएसई लिमिटेड व वेबसाइट : www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

a. ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न की स्थिति में, सदस्य / लाभार्थी स्वामी www.evotingindia.com के डाउनलोउ अनुभाग में उपलब्ध अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्नों और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका को देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर : 1800-22-5533 पर कॉल कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक अनूरोध भेजें

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 29 अगस्त, 2023 कृते शिवमश्री बिजनेसेज लिमिटे प्रफुल्लभाई बाविशिय डीआईएन : 0190818



रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड सीआईएनः L74899DL1992PLC050142 पंजीकृत कार्यालयः 820, अंतरिक्ष भवन,22 केजी मार्ग, नई दिल्ली -110001

दूरभाषः (011) — 011—41069500, 43509305, 43513857, फैक्सः 011—23738974 ई-मेलः secretarial@replurbanplanners.com, वेबसाइटः www.repl.global 21 सितंबर, 2023 को वीडियो कॉन्डेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो—विजुअल मीन्स (ओएवीएम)

के माध्यम से होने वाली 31वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में जानकारी

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के साथ पठित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी (सामूहिक रूप से 'के रूप में जाना जाता है) एमसीए परिपत्र') परिपत्रों परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल,2020, परिपत्र संख्या 20 / 2020 दिनांक 05 मई, 2020, परिपत्र संख्या 02 / 2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 02 / 2022 दिनांक 05 मई, 2022 और परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई 2020, 15 जनवरी 2021, 13 मई, 2022 और 05 जनवरी 2023 (''सेबी परिपत्र'') ,भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किए गए (सेबी परिपत्र) के अनुपालन में,कंपनी की 31वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 को अपराह्न 3:00 बजे आईएसटी, वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से 31वीं वार्षिक आम बैठक बुलाने वाले नोटिस में निर्धारित कार्यवाही निष्पादित करने के लिए आयोजित की जाएगी। उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी ने उन सभी शेयरधारकों को 31वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां भेज दी हैं, जिनके ईमेल पते कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (''रजिस्ट्रार) और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट('डीपीएस') के पास पंजीकृत हैं।'' वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 31वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.repl.global और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम की कार्यवाही 820, अंतरिक्ष भवन, 22 के.जी मार्ग, नई दिल्ली-110001 स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती है। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम के नोटिस में

शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित कार्यवाही पर दूरस्थ रूप से अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त कंपनी एजीएम (ई-वोटिंग) के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में प्रदान की

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के साथ—साथ उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचियन दायित्व प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियमन 42 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स शुक्रवार 15 सितंबर 2023 से गुरुवार, 21 सितंबर 2023 तक बंद रहेंगे।

> बोर्ड के आज्ञानुसार कृते रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 29 अगस्त 2023

25/08/2023

पर भी विपकाया गया है।

दिनांक : 30-06-2023

स्थान : गुरुग्राम

उपरोक्त-संदर्भित प्रतिभूत परिसंपत्तियों को बेचने की कार्रवाई करेगी।

के पश्चात सरफोएसि अधिनियम 2002 तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के तहत उपलब्ध विधियों में से किसी भी एक विधि को अपनाकर

उधारकर्ताओं तथा सर्वसाधारण को एतद्धारा सावधान किया जाता है कि वे उपर्युक्त संदर्भित संपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्तियों अथवा उसके किसी भी हिस्से

का लेन-देन न करें तथा उपर्युक्त संपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्तियों का कोई भी लेन-देन, संपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्तियों के समक्ष यहां इसमें उपरोक्त

यह सूचना प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (2) के अंतर्गत प्रकाशित की जा रही है तथा इसे संबंधित संपत्तियों के विशिष्ट स्थान

अकित राशि, जो कि पूर्ण भुगतान होने तक राशि पर नियत भावी ब्याज के साथ भुगतानयोग्य है, हेतु जीआईसीएचएफएल के प्रभाराधीन होगा।

कृते जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड,

प्राधिकृत अधिकारी

विकास गुप्ता कंपनी सचिव